



हमीरपुर पुलिस



दिनांक 26/03/2021

थाना कुरारा

हत्या की घटना का खुलासा 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि थाना कुरारा क्षेत्रांतर्गत गाँव करियापुर की महिला द्वारा उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में अपने पड़ोस में रहने वाले कपूर पुत्र कोमल निवासी करियापुर के विरुद्ध धारा-366 IPC अंतर्गत मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया था, महिला अपनी पुत्री के साथ गाँव में अकेले रहती थी, पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना पर मायके से वापस लौटी तो पुत्री की तलाश की और शक के आधार पर उपरोक्त मुकद्दमा दर्ज कराया गया, दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आये कि कपूर दौरान घटना सूरत में था तथा लड़की को नहीं ले गया था, जब परिवार वालों से शक के आधार पर गहनता से पूछताछ की गई तो लड़की के चचेरे भाई व चाचा ने स्वीकार किया कि उन्होंने लड़की की माँ की गैर मौजूदगी में उसे मार कर गहरे बोर-वेल में डाल दिया है।

पूछताछ के दौरान चचेरे भाई(शैलेन्द्र) व चाचा (मुलायम) द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मेरे चाचा की लड़की अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी जो गांव के ही कपूर पुत्र कोमल यादव से प्रेम प्रपंच चल रहा था इस बात को लेकर हम लोगो की काफी बदनामी हो रही थी, मृतका की माँ अपने मायके गयी हुयी थी इसी दौरान हम दोनो भाई व चाचा (मुलायम) ने मिलकर आपस में प्लान बनाया कि हम लोगो कि इस को लेकर काफी बदनामी हो रही है और इसकी की सम्पत्ति भी हाथ से निकल जायेगी अपने प्लान के मुताबिक चूहा मार दवा नमकीन में मिलाकर लड़की को खिलाया जब वह पूर्ण रूप से अचेतावस्था में हो गयी तो हम तीनों लोग मिलकर उसके शमसान घाट ले गये जहां पर कोई छिपाने की जगह नही थी फिर उसे एक ट्यूबवेल की वोरवेल में डालकर ऊपर से वोरवेल के ढक्कन को बंद कर दिया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर लड़की का शव व घटना में प्रयुक्त असलहा को बरामद कर लिया गया है, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, थाना कुरारा पुलिस द्वारा पूर्व में पंजीकृत अभियोग को विवेचना के आधार पर धारा-302/328/34/201 IPC में तरमीम करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1) शैलेन्द्र यादव पुत्र बलवीर यादव 2) मुलायम यादव पुत्र लाखन यादव

फरार अभियुक्त:- 3) रणधीर यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासीगण ग्राम करियापुर थाना कुरारा

बरामदगी का विवरण- 01 अदद आलाकत्ल कुल्हाडी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० थाना कुरारा बाँके बिहारी सिंह
2. उ०नि० भारत यादव
3. उ०नि० श्री पंकज तिवारी
4. का० राहुल कुमार
5. का० अमित कुमार
6. का० दीपक बाबू
7. का० अरूण कुमार
8. का० अनूप कुमार

